

वेङ्कतेश अस्तकं

१. वेङ्कतेशो, वासुदेव, प्रद्युम्नो, अमिथ विक्रम,
संकर्षणो अनिरुधस्च सेशद्रि पतिरेव च.

२. जनार्धन, पद्मनाभो, वेङ्कतचल वसन,
सृष्टि कर्त्थ, जगन्नाथो, माधवो, भक्त्था वत्सल.

३. गोविन्दो, गोपथि, कृष्ण, केसवो, गरुड द्वज,
वराहो, वमनस्चैव, नारायण, अधोक्षजा

४. स्त्रिदर, पुण्डरीकाक्ष, सर्व देव स्थुथो हरि,
श्री नरसिंहो, महा सिंह, सुथ्रकर पुरथन.

५. रमानाथो महि भरथ, भूधर, पुरुशोथाम,
चोल पुत्र प्रिय संथो, ब्रह्मादीनां वर प्रध

६. स्त्रिनिधि सर्व भूथानां भयक्रुतः, भय नासन,
श्री रामो रमभद्रस्च भव भन्धैक मोचक.

७. भुथावसो गिरिवास, श्रीनिवास, श्रिया पथि,
अच्युथनन्थ गोविन्दो विष्णुर वेङ्कट नायक

८. सर्व देविका सरणं, सर्व देविका दैवथं,
समास्थ देव कवचं, सर्व देव शिकमनि

फल स्रुथि

९. इथिधं कीर्थिथं यस्य विष्णोर अमिथ थेजसा,
त्रिकाल य पदेन नित्यं पापं थस्य न विध्यथे.

१०. अजद्वरे पदेतः घोरे संग्रामे रिपु संकटे,

भूथ सर्प पिसच्छि भयं नस्थि कदाचन.

११. अपुत्रो लभाथे पुत्रान, निर्धनो धनवान भ्यवेतः,
रोगर्थो मुच्यथे रोगतः, भधो मुच्यथे भन्दणतः.

१२. यद्य अधि इष्टथामं लोके तथात प्रपोनथ्य असंसया,
आइस्वर्यम, राज संमानं, भुक्थि, मुक्थि फल प्रधं.

१३. विष्णोर लोकैक सोपानं सर्व दुखैक नासनं,
सर्व इस्वर्य प्रधं निर्णां सर्व मंगल कारक,

१४. मायावी परमन्दं थ्यक्थ्व वैकुण्ड मुथामं,
श्र्वमि पुष्कराणि थीरे रामाय सह मोधाथे.

१५. कल्यनद्भुथ गथाय, कमिथर्थ प्रधयिने,
स्त्रिमद वेन्कट नाधय, स्त्रिनिवसया मङ्गलं.

इथि श्री ब्रह्माण्ड पुराने, ब्रह्म -नारद संवधे, वेन्कट गिरि महात्म्ये,
स्त्रिमद वेन्कतेष स्तोत्रं संपूर्णं

॥इति स्त्रिब्रःमन्दपुरणे ब्रःमनरदसंवदे वेन्कतगिरिमत्म्ये
स्त्रिमद्वेन्कतेसस्तोत्रं संपूर्णं॥